

2	3	4	5
---	---	---	---

संश्लेषण संख्या: 202401041013707
 वेब का शीर्षक: 2024-03-19 00:00:00
 प्रमाणपत्र का प्रकार: प्रतिनिधि प्रमाणपत्र
 वेब का प्रकार: विकल्प पत्र
 प्रमाणपत्र की संख्या: 445000 / 445000.00

1. रजिस्ट्रार शुल्क 4450
2. प्रतिनिधिकरण शुल्क 60
3. निरीक्षण का तलाश शुल्क
4. मुद्रांक के अधिग्रहण कर शुल्क
5. कमीशन शुल्क
6. निविदा
7. वारिक पत्र

1 से 6 तक का योग 4510
 शुल्क संग्रह करने का तिनांक 2024-03-19 00:00:00
 तिनांक जब वेब प्रतिनिधि या तलाश प्रमाण पत्र वापस करने के लिए तैयार होगा 2024-03-19 00:00:00
 रजिस्ट्रार अधिकारी के हस्ताक्षर

1 of 1

पुत्र श्री सतनाम सिंह
 पता: 163, सरदार फार्म, मेमोरा,
 एयर फोर्स स्टेशन, लखनऊ।




मोनु रावत
 पुत्र श्री कल्लू रावत
 पता: पिपरीली,
 साउथ सिटी, लखनऊ




2 3 4 5 6 7

राज किशोर पुत्र राधेलाल
निवासी-ग्राम-नूर नगर भदरसा,
परगना-बिजनौर,
तहसील-सरोजनीनगर,
जिला-लखनऊ, ३०प्र०।
राजकिशोर



एम एस इण्डस्ट्रीज, कार्यालय
पता-प्लॉट संख्या-102, सेक्टर-
बी, कानपुर रोड, लखनऊ द्वारा
प्रोपराईटर अखिलेश पाण्डेय पुत्र
श्री बृज नारायण पाण्डेय
निवासी- टिकुरीदशरथपुर,
जिला-मतापगढ़, ३०प्र० विस
ES
Proprietor
PROPRIETOR



ए पी डेवलपर्स कार्यालय
पता-मकान संख्या-71, सेनानी
विहार, गंगा सिंचाईपुरम,
आर०बी०आई० रोड (रायबरेली
रोड), लखनऊ द्वारा प्रोपराईटर
अनिल पाण्डेय पुत्र घनश्याम
पाण्डेय निवासी-मकान
संख्या-71 सेनानी विहार, गंगा
सिंचाईपुरम, आर०बी०आई० रोड,
लखनऊ।
APD
ERS
Proprietor



गुरमुख सिंह
पुत्र श्री सतनाम सिंह
पता: 163, सरदार फार्म, मेमोरा,
एयर फोर्स स्टेशन, लखनऊ।
Gurमुख सिंह



मोनू रावत
पुत्र श्री कल्लू रावत
पता: पिपरोली,
साउथ सिटी, लखनऊ
Monu



सम्पत्ति का फोटोग्राफ

खसरा संख्या-1036 रकबा-0.089 हेक्टेयर का 1/2 भाग अर्थात् 0.0445 हेक्टेयर
स्थित-ग्राम-नूरनगर भदरसा, परगना-बिजनौर, तहसील-सरोजनीनगर, जिला-लखनऊ।



राजेश्वर शर्मा

राजेश्वर शर्मा

विक्रेता के हस्ताक्षर/नि0अं0

AP DEVELOPERS

राजेश्वर शर्मा
Proprietor

MS INDUSTRIES

राजेश्वर शर्मा
Proprietor

क्रेता के हस्ताक्षर/नि0अं0

विक्रय मूल्य -रु0	4,45,000/-
मालियत -रु0	4,45,000/-
स्टाम्प शुल्क -रु0	31,200/-
परगना	- बिजनौर

विक्रय विलेख

लेख पत्र का संक्षिप्त विवरण -

1. भूमि का प्रकार - कृषि
2. राजस्व परगना - बिजनौर (कोड नं0-101)
3. ग्राम - नूरनगर भदरसा
(बी-कोड नं0-1041)
(नगर निगम सीमा के बाहर)
4. सम्पत्ति का विवरण - भूमि खसरा संख्या-1036 का भाग
5. मापन की इकाई - हेक्टेयर
6. सम्पत्ति का क्षेत्रफल - 0.0445 हेक्टेयर
7. सड़क की स्थिति - (परिशिष्ट के अनुसार)
- किसी भी सेगमेंट रोड पर स्थित नहीं है।
8. अन्य विवरण (जनपदीय/राष्ट्रीय मार्ग इत्यादि)- नहीं
9. सम्पत्ति का प्रकार - कृषि भूमि
10. पेड़ों का मूल्यांकन - नहीं
11. बोरिंग/कुआं/अन्य - नहीं
12. प्रतिफल की धनराशि-4,45,000/- रुपये

राज अरुण 2/11/2

MS INDUSTRIES
Proprietor

AP DEVELOPERS

राज अरुण
Proprietor

क्रमशः.....

प्रथम पक्ष की संख्या (1)

द्वितीय पक्ष की संख्या (2)

विक्रेता का विवरण

राज किशोर पुत्र राधेलाल निवासी-ग्राम-नूर नगर भदरसा,
परगना-बिजनौर, तहसील-सरोजनीनगर, जिला-लखनऊ, 30प्र0।

द्वितीय पक्ष की संख्या (2)

क्रेतागण का विवरण

(1) एम एस इण्डस्ट्रीज, कार्यालय पता-प्लॉट संख्या-102, सेक्टर-बी, कानपुर रोड, लखनऊ द्वारा प्रोपराईटर अखिलेश पाण्डेय पुत्र श्री बृज नारायण पाण्डेय निवासी-टिकुरीदशरथपुर, जिला-प्रतापगढ़, 30प्र0 व (2) ए पी डेवलपर्स कार्यालय पता-मकान संख्या-71, सेनानी विहार, गंगा सिंचाईपुरम, आर0बी0आई0 रोड (रायबरेली रोड), लखनऊ द्वारा प्रोपराईटर अनिल पाण्डेय पुत्र घनश्याम पाण्डेय निवासी-मकान संख्या-71, सेनानी विहार, गंगा सिंचाईपुरम, आर0बी0आई0 रोड, लखनऊ।

यह विक्रय विलेख राज किशोर पुत्र राधेलाल निवासी-ग्राम-नूर नगर भदरसा, परगना-बिजनौर, तहसील-सरोजनीनगर, जिला-लखनऊ, 30प्र0, (जिसे आगे इस विक्रय विलेख में विक्रेता/प्रथम पक्ष कहा गया है) के द्वारा (1) एम एस इण्डस्ट्रीज, कार्यालय पता-प्लॉट संख्या-102, सेक्टर-बी, कानपुर रोड, लखनऊ द्वारा प्रोपराईटर अखिलेश पाण्डेय पुत्र श्री बृज नारायण पाण्डेय निवासी-टिकुरीदशरथपुर, जिला-प्रतापगढ़, 30प्र0 व (2) ए पी डेवलपर्स कार्यालय पता-मकान संख्या-71, सेनानी विहार, गंगा सिंचाईपुरम, आर0बी0आई0 रोड (रायबरेली रोड), लखनऊ द्वारा प्रोपराईटर अनिल पाण्डेय पुत्र घनश्याम पाण्डेय निवासी-मकान संख्या-71, सेनानी विहार, गंगा सिंचाईपुरम, आर0बी0आई0 रोड, लखनऊ, (जिसे आगे इस विक्रय विलेख में क्रेतागण/द्वितीय पक्ष कहा गया है) के पक्ष में निष्पादित किया गया।

जो कि विक्रेता/प्रथम पक्ष भूमि खसरा संख्या-1036 रकबा-0.089 हेक्टेयर का 1/2 भाग अर्थात् 0.0445 हेक्टेयर स्थित-ग्राम-नूरनगर भदरसा, परगना-बिजनौर, तहसील-

MS INDUSTRIES
Proprietor
PROPRIETOR

क्रमशः.....

राजकिशोर

Proprietor
41054

सरोजनीनगर, जिला-लखनऊ, का मालिक, कामिल व काबिज है। उक्त भूमि विक्रेता/प्रथम पक्ष की पैतृक सम्पत्ति है, जो उसे वरासतन प्राप्त हुई है एवं भू-राजस्व अभिलेखों में विक्रेतागण के नाम संक्रमणीय भूमिधर सहखातेदार दर्ज है।

विदित हो कि विक्रीत भूमि का सही व वास्तविक रकबा- 0.089 हेक्टेयर है, किन्तु फसली वर्ष परिवर्तन के समय लिपिकीय त्रुटिवश उद्धरण खतौनी में भूमि खसरा संख्या-1036 का रकबा-0.089 हेक्टेयर के स्थान पर 0.8890 हेक्टेयर अंकित हो गया है।

उक्त भूमि विक्रेता/प्रथम पक्ष के पूर्ण स्वामित्व एवं आधिपत्य में मौजूद है तथा उपरोक्त भूमि हर प्रकार के भारों एवं विवादों जैसे रेहन, बय, हिबा, जमानत, मुकदमा, कुर्की, ऋण आदि से पूर्णतया निर्विवाद है एवं किसी वाद-विवाद में संलिप्त नहीं है तथा जिसको विक्रय आदि करने का विक्रेता/प्रथम पक्ष को पूर्ण कानूनी व मालिकाना अधिकार प्राप्त हैं।

अतः अब विक्रेता/प्रथम पक्ष ने अपनी राजी व खुशी से बिना किसी जोर या दबाव नाजायज के पूर्ण होशो हवास में अपनी निजी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उक्त भूमि नम्बरी व पैमाइशी में से, जिसका कि विस्तृत विवरण इस विक्रय विलेख में दिया जा रहा है, को सभी स्वामित्व सम्बन्धी हकों एवं अधिकारों सहित बिलएवज मु0 रूपया-4,45,000/- (चार लाख पैतालिस हजार रूपया मात्र) जिसके आधे रूपया-2,22,500/- (दो लाख बाईस हजार पांच सौ रूपये मात्र) होते हैं, में बदस्त क्रेतागण/द्वितीय पक्ष उपरोक्त के पक्ष में कतई विक्रय कर दिया तथा कुल विक्रय मूल्य क्रेतागण/द्वितीय पक्ष उपरोक्त से अन्त में उल्लिखित विवरण के अनुसार प्राप्त करके कब्जा व दखल मालिकाना अधिकार उपरोक्त विक्रीत भूमि पर क्रेतागण/द्वितीय पक्ष उपरोक्त को बखूबी करा दिया। अब आज की तारीख से क्रेतागण/द्वितीय पक्ष उपरोक्त को अधिकार होगा कि वह उपरोक्त विक्रीत भूमि को राजस्व अभिलेखों

श.ज.क.प.श.१/२

MS INDUSTRIES

Proprietor

क्रमशः.....

AP DEVELOPERS

Proprietor

एवं समस्त सरकारी अभिलेखों में जहाँ उचित समझे अपने नाम दर्ज करा लेवे, विक्रेता/प्रथम पक्ष को कोई आपत्ति नहीं होगी।

अब आज की तारीख के बाद से विक्रेता/प्रथम पक्ष या उनके किसी वारिसान व विधिक उत्तराधिकारी का कोई हक या हिस्सा व दावा उक्त विक्रीत भूमि या उसके विक्रय मूल्य के सम्बन्ध में किसी प्रकार का बाकी नहीं रहा। अगर कोई व्यक्ति विक्रीत भूमि या उसके विक्रय मूल्य के संबंध में क्रेतागण/द्वितीय पक्ष उपरोक्त से अपना हक जतावे या दावा करे तो दावा उसका इस बयनामें के समक्ष बिल्कुल नाजायज व शून्य होगा और अगर किसी व्यक्ति की दावेदारी या उज्जदारी या हकदारी से विक्रीत भूमि का कुल या जुज भाग क्रेतागण/द्वितीय पक्ष उपरोक्त के कब्जे से किसी भी समय निकल जावे या कब्जा न मिले, मिलिकयत या हकीयत विक्रेता/प्रथम पक्ष की करार न पाई जाए, या अन्य किसी प्रकार से उपरोक्त भूमि विवादित अथवा भार ग्रसित या किसी वाद-विवाद में संलिप्त निकले तो ऐसी तमाम सूरतों में क्रेतागण/द्वितीय पक्ष उपरोक्त को हक व अधिकार होगा कि वह अपने द्वारा दिया गया कुल रूपया सहित हर्जा व खर्चा व नुकसान वगैरह के विक्रेता/प्रथम पक्ष व उसके वारिसान व विधिक उत्तराधिकारी या उनकी अन्य चल व अचल सम्पत्ति से न्यायालय द्वारा वसूल कर लेवे, उसमें विक्रेता/प्रथम पक्ष या उनके वारिसान व विधिक उत्तराधिकारी को कोई आपत्ति न होगी। प्रस्तुत विक्रय विलेख में वर्णित तथ्य विक्रेता व क्रेता के वारिसान/विधिक उत्तराधिकारी, प्रतिनिधि पर समान रूप से प्रभावी होगा।

विक्रीत भूमि नगर निगम सीमा के बाहर अर्द्धनगरीय क्षेत्र के परगना-बिजनौर के ग्राम-नूर नगर भदरसा की कृषि भूमि है, जिसकी सरकारी मालियत श्रीमान जिलाधिकारी, लखनऊ द्वारा जारी मूल्यांकन सूची के अनुसार रूपया-1,00,00,000/- प्रति हेक्टेयर की दर से निर्धारित है। विक्रीत भूमि किसी राजमार्ग, राष्ट्रीय मार्ग, जनपदीय मार्ग व सम्पर्क मार्ग पर स्थित नहीं है। अतः निर्धारित दर के अनुसार विक्रीत भूमि के क्षेत्रफल-0.0445 हेक्टेयर की कुल सरकारी मालियत मुबलिंग रूपया-4,45,000/-

राजा केशोर

MS INDUSTRIES

Proprietor

क्रमशः.....

AP DEVELOPERS

Proprietor

होती है, जो कि विक्रय मूल्य के बराबर है। अतः विक्रय मूल्य पर शासकीय शासनादेश संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-5 की अधिसूचना संख्या-स.वि.क.नि.5-2756/11-2008-500 (165)/ 2007 दिनांक 30.06.2008 के अनुसार 7 प्रतिशत की दर से मु0 31,200/- रुपये का स्टाम्प शुल्क ई-स्टाम्प प्रमाण-पत्र संख्या-IN-UP01499614641018W दिनांक 19.03.2024 के माध्यम से अदा किया गया है।

विक्रीत भूमि की 0-200 मीटर की त्रिज्या में आबादी/आवासीय गतिविधियां विद्यमान नहीं हैं विक्रीत भूमि में कोई भी कच्चा या पक्का निर्माण नहीं है व उपरोक्त भूमि पर कोई बाग-बगीचा, पेड़, ट्यूबवेल, कुआं आदि नहीं है तथा विक्रीत भूमि कृषि भूमि है। विक्रेता/प्रथम पक्ष एवं क्रेतागण/द्वितीय पक्ष के मध्य पूर्व में कोई इकरारनामा बय पंजीकृत नहीं हुआ है। विक्रेतागण/प्रथम पक्ष एवं क्रेतागण/द्वितीय पक्ष अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्य नहीं हैं। विक्रेता/प्रथम पक्ष व क्रेतागण/द्वितीय पक्ष का स्थायी व अस्थायी पता उपरोक्तानुसार है। विक्रीत भूमि उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद एवं लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ व किसी भी योजना के अन्तर्गत अधिग्रहीत नहीं की गयी है। प्रस्तुत विक्रय विलेख विक्रेता एवं क्रेता के बताये गये तथ्यों एवं उपलब्ध कराये गये साक्ष्यों के आधार पर तैयार किया गया है, जिसकी समस्त जिम्मेदारी विक्रेता व क्रेता की होगी, जिसमें मसविदाकर्ता व टाईपकर्ता की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। गवाहों द्वारा विक्रेता व क्रेता की पहचान की गई है।

विक्रीत भूमि का विस्तृत विवरण

भूमि खसरा संख्या-1036 रकबा-0.089 हेक्टेयर का 1/2 भाग अर्थात् 0.0445 हेक्टेयर स्थित-ग्राम-नूरनगर भदरसा, परगना-बिजनौर, तहसील-सरोजनीनगर, जिला-लखनऊ, जिसकी चौहद्दी निम्नवत् है:-

राजेश शर्मा

MS INDUSTRIES
Proprietor

क्रमशः.....

AP DEVELOPERS
Proprietor

चौहद्दी

पूरुब -	भूमि खसरा संख्या-1037, लौंगश्री
पश्चिम -	भूमि खसरा संख्या-1035, क्रेता
उत्तर -	भूमि खसरा संख्या-1032, क्रेता
दक्षिण -	भूमि खसरा संख्या-1041

विक्रय मूल्य प्राप्ति का विवरण

1. रूपया-2,20,000/- RTGS UTR No.
HDFCR52024031187072551 के माध्यम से प्राप्त।
2. रूपया-2,20,000/- RTGS UTR No.
IDFBR52024031300386884 के माध्यम से प्राप्त।
3. रूपया-5,000/- नगद प्राप्त।

इस प्रकार कुल विक्रय मूल्य रूपया-4,45,000/- (चार लाख पैतालिस हजार रूपया मात्र) क्रेता/द्वितीय पक्ष उपरोक्त से विक्रेता/प्रथम पक्ष ने समक्ष गवाहान उपरोक्तानुसार प्राप्त कर लिया है। अब विक्रीत भूमि के सम्बन्ध में विक्रेता/प्रथम पक्ष को क्रेतागण/द्वितीय पक्ष से कुछ भी धनराशि पाना शेष नहीं रहा।

प्रस्तुत विक्रय विलेख हम उभयपक्षों ने पढ़/सुन व समझकर पूर्ण होशो हवास में समक्ष निम्न गवाहान अपने-अपने हस्ताक्षर बनाकर निष्पादित करके निबन्धीकृत करा दिया ताकि प्रमाण रहे

राजकिशोर

AP DEVELOPERS
S. K. SINGH
Proprietor

MS INDUSTRIES
Proprietor

क्रमशः.....


द्वही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 9838

वर्ष: 2024

प्रतिफल. 445000 स्टाम्प शुल्क- 31200 बाजारी मूल्य - 445000 पंजीकरण शुल्क - 4450 प्रतिस्तिपिकरण शुल्क - 60 योग : 4510

श्री एम एस इण्डस्ट्रीज द्वारा
अखिलेश पाण्डेय अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि,
पुत्र श्री बृज नारायण पाण्डेय
व्यवसाय : व्यापार
निवासी: टिकुरीदशरथपुर, जिला-प्रतापगढ़, उ०प्र०




अखिलेश पाण्डेय अधिकृत
पदाधिकारी/ प्रतिनिधि

श्री, एम एस इण्डस्ट्रीज द्वारा

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 19/03/2024 एवं
03:02:25 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

दिनेश शंकर बाजपेयी प्रभारी
उप निबंधक : सरोजनीनगर
लखनऊ
19/03/2024
वीरेंद्र नाथ पाण्डेय
निबंधक लिपिक
19/03/2024




और आवश्यकता पड़ने पर साक्ष्य के रूप में काम आवे।

लखनऊ
दिनांक : 19.03.2024

ह0 विक्रेता/प्रथम पक्ष




1. गवाह - 
नाम: गुरुमुख सिंह
पुत्र श्री सतनाम सिंह
पता: 163, सरदार फार्म,
मेमोरा, एयर फोर्स स्टेशन,
लखनऊ।
मो0-9648977709




(राज किशोर)
पैन-LWYPK8141B
मो0-7380587765

ह0 क्रेतागण/द्वितीय पक्ष




2. गवाह 
नाम : मोनू रावत
पुत्र श्री कल्लू रावत
पता: पिपरौली,
साउथ सिटी, लखनऊ
मो0-7007553221

(अखिलेश पाण्डेय)
प्रोपराईटर
एम एस इण्डस्ट्रीज
पैन-CBVPP7252F
मो0-7880855501



(अनिल पाण्डेय)

प्रोपराईटर
ए पी डेवलपर्स
पैन-BEBPP9694H
मो0-9956556666

टाइपकर्ता


(सोनू बालाजी)
कलेक्टर, लखनऊ।

मसविदाकर्ता


(रकेश सिंह)
एडवोकेट
कलेक्टर, लखनऊ।
मो0-8090742149

वही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 9838

वर्ष: 2024

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त विक्रेता: 1

श्री राज किशोर, पुत्र श्री राधेलात

निवासी: ग्राम-नूर नगर भदरसा, परगना-बिजनौर, तहसील-सरोजनीनगर, जिला-लखनऊ

व्यवसाय: अन्य

क्रेता: 1

21/03/2024



श्री एम एस इण्डस्ट्रीज के द्वारा अखिलेश पाण्डेय, पुत्र श्री वृज नारायण पाण्डेय

निवासी: टिकुरीदशरथपुर, जिला-प्रतापगढ़, उ०प्र०

व्यवसाय: व्यापार

क्रेता: 2

Alondy



श्री ए पी डेवलपर्स द्वारा प्रोपराईटर अनिल पाण्डेय, पुत्र श्री धनश्याम पाण्डेय

निवासी: म०सं०-71, सेनानी विहार, गंगा सिंचाईपुरम, आर०बी०आई० रोड, लखनऊ

व्यवसाय: व्यापार

ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान पहचानकर्ता: 1

Anil Pandey



श्री गुरमुख सिंह, पुत्र श्री सतनाम सिंह

निवासी: 163, सरदार फार्म, मेमोरा, एयर फोर्स स्टेशन, लखनऊ

व्यवसाय: व्यापार

पहचानकर्ता: 2

Gurमुख



श्री मोनू रावत, पुत्र श्री कल्लू रावत

निवासी: पिपरोली, साउथ सिटी, लखनऊ

व्यवसाय: व्यापार

Moonu



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर


ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए हैं।
टिप्पणी: प्रतिफल के प्राप्ति की विक्रेता द्वारा लेखपत्र में अंकित विवरण अनुसार पुष्टि की गई।

दिनेश शंकर बाजपेयी प्रभारी
उप निबंधक: सरोजनीनगर
लखनऊ
19/03/2024

वीरेंद्र नाथ पाण्डेय
निबंधक लिपिक लखनऊ
19/03/2024

0-200 मीटर त्रिज्या का मानचित्र

सूच संख्या-1036 रकबा-0.089 हेक्टेयर का 1/2 भाग अर्थात् 0.0445 हेक्टेयर स्थित-ग्राम-नूरनगर भदरसा, परगना-बिजनौर, तहसील-सरोजनीनगर, जिला-लखनऊ।



जैतीखेड़ा

रतौली

रतौली के हस्ताक्षर
 जिला विकास अधिकारी प्रभारी
 नूरनगर : सरोजनीनगर
 लखनऊ
 19/03/2024

राजेश्वर

विक्रेता के हस्ताक्षर/नि0अं0

AP DEVELOPERS
 12699 के पृष्ठ 387 से 404 तक कमांक
 19/03/2024 को रजिस्ट्रार के पास
 Proprietor

MS INDUSTRIES

अनुदान सं: 202401041013707
 Proprietor

क्रेता के हस्ताक्षर/नि0अं0

आवेदन सं०: 202401041013707

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 12699 के पृष्ठ 387 से 404 तक क्रमांक 9838 पर दिनांक 19/03/2024 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

DS
दिनेश शंकर बाजपेयी प्रभारी
उप निबंधक : सरोजनीनगर
लखनऊ
19/03/2024

